

भावी नवाचार हरित समाधान

31-12-2017 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31-12-2017	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2016	31-03-2017
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	5,498.45	5,646.35	16,562.82	17,556.82	23,350.79
2.	अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व, अपवादात्मक एवं असाधारण मदें)	1,874.78	2,473.89	5,587.07	6,973.29	8,860.70
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पश्चात)	1,874.78	2,473.89	5,587.07	6,973.29	8,860.70
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पश्चात)	1,296.41	1,754.40	3,812.21	4,926.53	6,245.76
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [आवधि के लिए लाभ सहित (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
7.	आरक्षित एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निकालकर) (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च की यथास्थिति)					31,350.67
8.	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 प्रति) (आगे जारी रहने वाले एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए) (₹ में)					
	मूल	6.56	8.88	19.30	24.95	31.63
	डायल्यूटिड	6.56	8.88	19.30	24.95	31.63

टिप्पणियां:

- 30 जून, 2017 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार लेने और इस तरह के उधार/अनुबंध की अवधि के दौरान हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के एक समय की व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए लेखांकन नीति को संशोधित किया था। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹ 9.52 करोड़ और ₹ 54.50 करोड़ अधिक है।
इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान, ऐसी आय को एकूरल (उपचय) आधार पर रिकग्नाइज करने के लिए, सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क के रिकग्नाइजिंग की नीति को बदल दिया गया है। लेखाकरण नीतियों में हुए इन परिवर्तनों के कारण, 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 23.82 करोड़ कम है और 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त नौमाही के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 43.93 करोड़ अधिक है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 7.40 के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है तथा अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए 19 फरवरी, 2018 को रिकार्ड तिथि निर्धारित किया है।
- जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड-एएस) को लागू करेगी। तदनुसार, उपरोक्त 'अन्य व्यापक आय' के संबंध में उपरोक्त को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि इस शब्दावली को केवल भारतीय-लेखाकरण मानक के तहत परिभाषित किया गया है।
- उपरोक्त जानकारी, सेवा (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा www.nse-india.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पी. वी. रमेश

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन - 02836069

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 6 फरवरी, 2018

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Follow us on:



कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-43091500
फैक्स: 011-24360644, वेबसाइट: www.recindia.com सीआईएन: L40101DL1969GOI005095